

इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) (सी आई एन: L65910DL1986GOI026363)

पंजीकृत कार्यालय : रूम नं. 1316 & 1349, तीसरी मंजिल, दि अशोक, डिप्लोमैटिक एन्कलेव 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

दरभाष : 011-24100385

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN: L65910DL1986GOI026363)

Regd. Office: Room Nos. 1316 – 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave: - 50-B, Chanakyapuri, New Delhi-110021

Phone: 011-24100385, E-mail: info@irfc.co.in, Website: www.irfc.co.in

No: IRFC/SE/2022-23/11

21st May 2022

National Stock Exchange of India Limited

Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai- 400 051

BSE Limited

Listing Dept / Dept of Corporate Services,

PJ Towers, Dalal Street,

Mumbai -400 001

Scrip Symbol: IRFC

Scrip Code: 543257

<u>Sub</u>: <u>Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed Newspaper Clipping of the advertisement published in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For Indian Railway Finance Corporation Limited

CIN L65910DL1986 GOI026363

(Vijay Babulal Shirode)

Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: As Above





in Nursery Class Contact school office on all working days Tel: 011-26274080

Weekend **Business Standard DELHI EDITION**

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8. Sector-7. Noida. Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadu Shah Zafar Marg, New Delhi 110002 Editor : Shailesh Dobhal

RNI No. DELENG/2013/53036 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.ir Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201

For Subscription and Circulation

enquiries please contact: Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations Business Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: subs bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575"

DISCLAIMER News reports and feature art les in Business Standard seek to present ar inbiased picture of developments in the mai kets, the corporate world and the govern ment. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge Business Standard does not take any respon sibility for investment or business decisions aken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itsel with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the dvertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all right

eserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd Any printing, publication, reproduction transmission or redissemination of the co ents, in any form or by any means, is prohib ted without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibted and unauthorised act by any person/lega ntity shall invite civil and criminal liabilities

No Air Surcharge



PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LIMITED

(CIN:U29253MH2009PLC193352)
Registered and Corporate Office: D-112, TTC Industrial Area, MIDC, Nerul, Navi Mumbai 400 706, Maharashtra, India Tel: +91 22 6919 9999; Website: www.parasdefence.com

Extract of Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended Ma	rch 31, 2022

	(Rs. in Lakhs, except per equity share data								
			Standalone		Consolidated				
	Particulars	Quarter Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2022	Quarter Ended March 31, 2021	Quarter Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2022	Quarter Ended March 31, 2021		
1	Total Income from Operations	6,047	18,000	7,375	6,124	18,256	8,402		
2	Net Profit for the period/ year before tax (before Exceptional items)	1,441	3,639	2,499	1,433	3,657	2,563		
3	Net Profit for the period/ year before tax (after Exceptional items)	1,441	3,639	2,499	1,433	3,657	2,563		
4	Net Profit for the period/ year after tax (after Exceptional items)*	1,042	2,691	1,784	1,035	2,708	1,847		
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]*	1,022	2,690	1,788	1,016	2,708	1,836		
6	Equity Share Capital	3,900	3,900	2,985	3,900	3,900	2,985		
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet)	-	29,679	-	-	29,732	-		
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)								
	a) Basic (Not Annualised)*	2.67*	7.73	5.98*	2.66*	7.78	6.19*		
	b) Diluted (Not Annualised)*	2.67*	7.73	5.98*	2.66*	7.78	6.19*		

Includes share of Non Controlling Interest

Place: Navi Mumbai, Maharashtra

Date: May 20, 2022

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Result of the Quarter and Year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges or May 20, 2022 under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of aforementioned Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and the Company's website (www.parasdefence.com)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 20, 2022. For Paras Defence and Space Technologies Limited

MUNJAL SHAH Managing Director

DIN: 01080863

SYNERGY GREEN INDUSTRIES LIMITED

SYNERGY GREEN

CIN: L27100PN2010PLC137493 392, E Ward, Shahupuri, Assembly Road, Kolhapur - 416001 Tel: (0231) 2658375 Email: nmm@synergygreenind.com Website: www.synergygreenind.com **Extract of Audited Financial Results**

for the guarter and year ended 31st March 2022

		(Rs. In Lakhs except earning per share data)					
		G	Quarter ende	d	Year I	Ended	
Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total income from operations	8,246.82	7,083.45	7,239.12	28,491.69	19,992.37	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	361.80	-87.41	384.97	306.63	524.83	
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	361.80	-87.41	384.97	306.63	524.83	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	191.92	-107.16	269.66	142.82	317.58	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	181.07	-112.94	272.83	114.63	305.78	
6	Equity Share Capital	1,413.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	
7	Other equity excluding Revaluation Reserves	1		1	ı	1,888.76	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for Continuing and discontinued of operations) 1. Basic: 2. Diluted:	1.36	-0.76	1.91	1.01	2.25	

Notes:

- The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 20, 2022.
- The audit as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been completed by the Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 filed with the stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full formats of Audited financial results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com. NSE at www.nseindia.com and on company's website at www.synergygreenind.com. For and on behalf of the Board of Directors

Place: Kolhapur Dated: 20.05.2022

Sd/-Sachin R. Shirgaokar **Chairman & Managing Director**

DIN:00254442

Future On Track

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: L65910DL1986G0I026363

Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B Chanakyapuri, New Delhi -110021, Ph.: 011-24100385, Email: investors@irfc.co.in. Website: www.irfc.co.in

Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

(Amounts in millions of INR, unless stated otherwise)

Azadi Ka

Amrit Mahotsav

			Quarter Ende	ed	Year Ended		
S.No	Particulars	31 March 2022	31 December 2021	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021	
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
(I)	Revenue From Operations	59,311.25	50,958.06	44,549.46	202,982.68	157,702.21	
(II)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.31	
(III)	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.31	
(IV)	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	14,924.95	15,939.09	14,825.50	60,898.36	44,161.31	
(V)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	14,916.69	15,939.25	14,826.26	60,893.36	44,176.07	
(VI)	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	
VII)	Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	279,278.34	264,361.68	228,448.76	279,278.34	228,448.76	
VIIII)	Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	
IX)	Net Worth	409,963.40	395,046.74	359,133.82	409,963.40	359,133.82	
X)	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	3,884,166.18	3,691,017.50	3,231,106.79	3,884,166.18	3,231,106.79	
XI)	Debt Equity Ratio	9.47	9.34	9.00	9.47	9.00	
XII)	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- Per Share)						
	-Basic (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66	
	- Diluted (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66	

Notes:

- 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on 20th May 2022.
- 2. The above is an extract of the detailed format for the quarter and year ended 31 March 2022 financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended 31 March 2022 financial results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Company (www.irfc.co.in).
- 3. Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary
- 4. The Board of Directors has recommended the final Dividend of Rs. 0.63/- per equity share of Rs 10/- each for the financial year 2021-22, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of Rs 0.77/per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for the Financial Year 2021-22 to Rs. 1.40/- per share, on the face value of Rs 10/- each.
- 5. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com

Place: Gandhinagar, Gujarat Date: 20th May 2022

(Amitabh Banerjee) Chairman & Managing Director DIN: 03315975

Important Notice: Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at investors@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@beetalfinancial.com which will be used for sending official documents through e-mail in future.



IRFC Posts 29% Growth in Revenue and 38% **Jump in Net Profit for FY 2021-22**

EPS to end of FY 22 Rises to ₹ 4.66 from ₹ 3.66 as at the end of FY 21

Azadi _{Ka} ^{Amrit} Mahotsav

ADVERTORIAL

Schedule 'A' Public Sector Enterprise ("IRFC" or the "Company"), the dedicated market borrowing arm of the Indian Railways, has announced its audited financial results for the fourth quarter and financial year ended 31st March 2022. The Company posted a YoY profit growth of 37.90% for the FY 2021-22 vis-à-vis FY 2020-21.

GANDHINAGAR, GUJARAT, 20TH MAY 22: Indian Railway Finance Corporation Limited,

In FY 2021-22, the Company reported Profit After Tax (PAT) of ₹ 6,090 crore vis-a-vis ₹4,416 crore reported in the previous FY 2020-21.

The Revenue from Operations for FY 2021-22 grew by 28.71 % & stands at ₹ 20,298.27 Crore, as against ₹ 15,770.22 Crore in previous FY 2020-21. The revenue from operations for Q4/FY 2022 grew by 16.39% to stand at ₹ 5,931.12 Crore as against ₹ 5,095.81 Crore reported in Q3/FY 2022.

Net worth to end of FY 2021-22, stands at ₹ 40,996.34 crore up by 14.15 %, as against ₹35,913.38 crore reported to end of FY 2020-21.

Assets Under Management (AUM) stands at ₹ 4,15,237.68 crore as on 31st March 2022 registering a growth of 15.32%.

The Earning Per Share (EPS) of the company is ₹ 4.66 to end of FY 2021-22, as compared to ₹ 3.66 to end of FY 2020-21 registering an increase of 27.32 % YoY. The Company continues to raise funds at the most competitive rates and terms, both from the domestic and overseas financial markets, which has helped to keep cost of borrowings low.

The Board of Directors has recommended the final Dividend of ₹ 0.63 per equity share of Rs 10/each for FY 2021-22, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of ₹ 0.77/- per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for FY 2021-22 to ₹ 1.4 per share, on the face value of ₹10/- each.

Commenting on the Financial Results, Shri. Amitabh Banerjee, Chairman and Managing Director, IRFC said: "IRFC has consistently exhibited a rising and strong financial performance on the back of raising funds at the most competitive rates and at the opportune time from the domestic and international markets. Despite the hardening of interest rate in the financial market, due to diversified borrowing portfolio IRFC could achieve reduction in weighted average cost of borrowing by 10 bps as compared to previous year. IRFC is committed to its contribution to India's resolve in developing and expanding the Infrastructure Sector with a special impetus on Railway Sector. This is amply evident from the high quantum of borrowing mandate of ₹ 66,500 for FY 2022-23 received from MoR.

Government of India has encouraged private participation in rail projects and has approved participative models for rail connectivity and capacity augmentation projects. IRFC is set to expand its wings, and as per the mandate, it can finance Non-Railway projects that have a backward and/or a forward linkage with the Indian Railways, which would include high-speed rails, dedicated freight corridors, station development, port development and multi-modal logistic parks."

SATURDAY, MAY 21, 2022

TRAI TO FLOAT CONSULTATION PAPER

BACK PAGE

Soon, your phone will flash callers' names as per KYC

KIRAN RATHEE New Delhi, May 20

THE DEPARTMENT OF telecommunications (DoT) will soon come out with a mechanism which would enable a caller's name to flash on the screen when someone calls. The name would be as per the know-your-customer (KYC) record of subscribers with the telecom operators.

Telecom Regulatory Authority of India (Trai) chairman PD Vaghela told FE that a consultation paper on this would be floated soon to seek stakeholders' comments, as the department has received a reference to this effect from the DoT.

"We have just received a reference, and we will start work on this soon. Name as per KYC will appear when someone calls,"Vaghela said. He said Trai had been thinking on similar lines before the specific DoT reference.

He said the mechanism will enable the caller's name to appear on the screen in accordance with KYC information collected by telecom companies, as per DoT norms.

Effectively, subscribers will get to know the name of a caller even if it is not saved in their phone book. Currently, some users can know the identity of such callers using apps like Truecaller. The limitation with such apps is that the data is crowdsourced, so it may not be 100% authentic — something which is guaranteed in KYC data.

An added advantage of the mechanism would be that recipients will be able to avoid spam and unsolicited calls or

The mechanism will enable display of name according to KYC data of subscribers collected by telecom companies

This will ensure **greater accuracy** than apps that identify callers based on crowdsourced data

It will also allow recipients to avoid or report spam and unsolicited calls

Trai's consultation with stakeholders may bring up concerns like privacy and subscribers' consent



We have just received a reference [from the DoT], and we will start work on this soon. Name as per KYC will appear when someone

calls PD VAGHELA, TRAI CHAIRMAN

report them to the authority for necessary action. So far, despite several measures, Trai has not been able to stop unsolicited commercial calls in an effective manner.

Since the matter relates to policy, the final decision would

be of the DoT and not Trai, which will only have to send in recommendations after widespread consultation with stakeholders. It is only in matters of tariff that Trai's decision is final and the government has no role.

The Trai consultation paper will highlight issues about the mechanism and invite comments from stakeholders. The regulator will subsequently hold open house sessions in major cities, before finalising its recommendations.

The issue of privacy is likely to come up among concerns raised during this exercise. It is possible that some organisations may object to disclosing names without the subscribers'consent.

Officials, however, said there is a way to provide safeguards if such concerns are raised.

Google to let Tinder users choose how to pay for now: Match

REUTERS May 20

> MATCH GROUP SAID on Friday that Alphabet's Google will temporarily allow the dating apps maker to offer users a choice in payment systems.

Match sued Google earlier in May, calling the action a "last resort" to prevent Tinder and its other apps from being booted off the Google Play store for refusing to share up to 30% of sales. The date for the trial is currently set for April 2023.

The company said on Friday it has withdrawn its request for a temporary restraining order against Google after it made a number of concessions that would prevent Match's apps from being removed from the Play store for offering alternate payment options.

Match will have to continue to integrate Google Play billing through the trial or until the dispute is settled, Google said.

Match's lawsuit came against the backdrop of ongoing cases brought by 'Fortnite' maker Epic Games, dozens of US state attorneys general and others in targeting Google's allegedly anticompetitive conduct related to the Play store.

Google had said it will block downloads of some of Match's apps by June 1 unless they solely offered Google's payment system and shared revenue, the lawsuit stated.

Most users on Match's most popular app, Tinder, prefer its payment system, which allows for installment plans, bank transfers and features not provided by Google, according to the lawsuit.

Match said on Friday it plans to put up to \$40 million into an escrow account, instead of paying Google directly for billing transactions on the Android operating system outside of Play store billing, as part of the temporary agreement.

Azadi Ka

Amrit Mahotsav

EXPLAINER

GENOME-EDITED CROPS TO WEATHER CLIMATE RISKS



The environment ministry's exemption of some genome-edited crop types from biosafety norms for genetically modified (GM) crops, and the biotechnology department notifying guidelines for safety assessment of such plants, are likely to spur faster

development of climateresilient crop varieties. Sandip Das explains geneediting technologies and their potential.

■ Genome editing

Genome editing enables modification of plants' owned genes, without insertion of external genes, as with GM c ops. Genome-edited varieties possess no foreign DNA and are indistinguishable from crops developed through conventional plant-breeding methods, or using naturally occurring mutations.

■The environment ministry in March 2022 exempted SDN 1 and SDN 2 genomes from Rules 7-11 of the Environment Protection Act

Conventional breeding hnique takes 8-10 years for development of new crop varieties; genome-editing can do this faster

■ Genome diting is being used in 25 ountries in 40 crops for which tial or complete enome sequece is avai<u>lable</u>

developments

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Genome editing is


being used in most crop plants for which partial or complete genome sequence is available and is being applied in around 40 crops across 25 countries. The US and China are leaders in usage of this technology for developing crop varieties like rice, maize, soybean, canola and tomato which withstand biotic and abiotic stresses arising out of climate change.

■ Impact on domestic crop development



Council for Agricultural Research has said the technology has great promise and emphasis is needed on improving oilseed and pulse crop varieties resistant to diseases, insects or pests, and tolerant to drought, salinity and heat stresses. Last year, a group of scientists wrote to the PM, for ease of release of the technology.

■ Faster development of crop varieties



three years. Experts say the technology has promise to reduce import dependence on oilseeds and pulses through faster development of varieties resistant to diseases, pests, and with tolerance to drought, salinity and heat stresses.

■ Relaxation in rules

The exemption of SDN1 and SDN 2 genomes from Rules 7-11 will help avoid a long approval process through the Genetic Engineering Appraisal Committee for GM crops. SDN1 and SDN 2 genome editing is being used in Indian labs to breed crops imparting traits like resistance to diseases, drought and salinity stresses.



INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: L65910DL1986G0I026363

Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B

Chanakyapuri, New Delhi -110021. Ph.: 011-24100385, Email: investors@irfc.co.in, Website: www.irfc.co.in

Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

(Amounts in millions of INR, unless stated otherwise)

	Particulars		Quarter Ende	Year Ended		
S.No		31 March 2022	31 December 2021 (Unaudited)	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021
		(Audited)		(Audited)	(Audited)	(Audited)
(I)	Revenue From Operations	59,311.25	50,958.06	44,549.46	202,982.68	157,702.21
(II)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825,50	60,901.55	44,161.31
(III)	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.31
(IV)	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	14,924.95	15,939.09	14,825.50	60,898.36	44,161.31
(V)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	14,916.69	15,939.25	14,826.26	60,893.36	44,176.07
(VI)	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06
VII)	Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	279,278.34	264,361.68	228,448.76	279,278.34	228,448.76
VIIII)	Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74
IX)	Net Worth	409,963.40	395,046.74	359,133.82	409,963.40	359,133.82
X)	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	3,884,166.18	3,691,017.50	3,231,106.79	3,884,166.18	3,231,106.79
(XI)	Debt Equity Ratio	9.47	9.34	9.00	9.47	9.00
XII)	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- Per Share)					
	-Basic (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66
	- Diluted (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66

 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on 20th May 2022.

2. The above is an extract of the detailed format for the quarter and year ended 31 March 2022 financial results filed with the stock exchange. under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended 31 March 2022 financial results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Company (www.irfc.co.in).

Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary

 The Board of Directors has recommended the final Dividend of Rs. 0.63/- per equity share of Rs 10/- each for the financial year 2021-22. subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of Rs 0.77/per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for the Financial Year 2021-22 to Rs. 1.40/- per share, on the face value of Rs 10/- each.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com

> (Amitabh Banerjee) Chairman & Managing Director DIN: 03315975

Important Notice: Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at investors@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@beetalfinancial.com which will be used for sending official documents through e-mail in future.



IRFC Posts 29% Growth in Revenue and 38% Jump in Net Profit for FY 2021-22

EPS to end of FY 22 Rises to ₹ 4.66 from ₹ 3.66 as at the end of FY 21

Azadi Ka Amrit Mahotsav

ADVERTORIAL

GANDHINAGAR, GUJARAT, 20TH MAY 22: Indian Railway Finance Corporation Limited, Schedule 'A' Public Sector Enterprise ("IRFC" or the "Company"), the dedicated market borrowing arm of the Indian Railways, has announced its audited financial results for the fourth quarter and financial year ended 31st March 2022. The Company posted a YoY profit growth of 37.90% for the FY 2021-22 vis-à-vis FY 2020-21.

In FY 2021-22, the Company reported Profit After Tax (PAT) of ₹ 6,090 crore vis-a-vis ₹4,416 crore reported in the previous FY 2020-21.

The Revenue from Operations for FY 2021-22 grew by 28.71 % & stands at ₹ 20,298.27 Crore, as against ₹ 15,770.22 Crore in previous FY 2020-21. The revenue from operations for Q4/FY 2022 grew by 16.39% to stand at ₹ 5,931.12 Crore as against ₹ 5,095.81 Crore reported in Q3/FY 2022.

Net worth to end of FY 2021-22, stands at ₹ 40,996.34 crore up by 14.15 %, as against ₹35,913.38 crore reported to end of FY 2020-21.

Assets Under Management (AUM) stands at ₹ 4,15,237.68 crore as on 31st March 2022 registering a growth of 15.32%.

The Earning Per Share (EPS) of the company is ₹ 4.66 to end of FY 2021-22, as compared to ₹ 3.66 to end of FY 2020-21 registering an increase of 27.32 % YoY. The Company continues to raise funds at the most competitive rates and terms, both from the domestic and overseas financial markets, which has helped to keep cost of borrowings low.

The Board of Directors has recommended the final Dividend of ₹ 0.63 per equity share of Rs 10/each for FY 2021-22, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of ₹ 0.77/- per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for FY 2021-22 to ₹ 1.4 per share, on the face value of ₹10/- each.

Commenting on the Financial Results, Shri. Amitabh Banerjee, Chairman and Managing Director, IRFC said: "IRFC has consistently exhibited a rising and strong financial performance on the back of raising funds at the most competitive rates and at the opportune time from the domestic and international markets. Despite the hardening of interest rate in the financial market, due to diversified borrowing portfolio IRFC could achieve reduction in weighted average cost of borrowing by 10 bps as compared to previous year. IRFC is committed to its contribution to India's resolve in developing and expanding the Infrastructure Sector with a special impetus on Railway Sector. This is amply evident from the high quantum of borrowing mandate of ₹ 66,500 for FY 2022-23 received from MoR.

Government of India has encouraged private participation in rail projects and has approved participative models for rail connectivity and capacity augmentation projects. IRFC is set to expand its wings, and as per the mandate, it can finance Non-Railway projects that have a backward and/or a forward linkage with the Indian Railways, which would include high-speed rails, dedicated freight corridors, station development, port development and multi-modal logistic parks."

New Delhi

Place: Gandhinagar, Gujarat

Date: 20th May 2022

एनदीपीक्षी

Particulars

Net profit before tax (before exceptional items

Net profit before tax (after exceptional items)

Profit after tax attributable to owners of the

Profit after tax attributable to non-controlling

Paid-up equity share capital (Face value of

Other equity excluding revaluation reserve

Earnings per share (of ₹ 10/- each) - (not

annualised) (including net movement in

Earnings per share (of ₹ 10/- each) - (not

annualised) (excluding net movement in

https://www.bseindia.com & https://www.nseindia.com

regulatory deferral account balances):

regulatory deferral account balances):

Total comprehensive income after tax

Total income from operations

Profit after tax

parent company

share ₹ 10/- each)

10 Net worth*

as per balance sheet

Paid up debt capital

Basic and Diluted (in ₹)

Basic and Diluted (in ₹)

current/previous financial year.

Place: New Delhi

Date : 20 May 2022

Future On Track

Debenture redemption reserve

Powering Growth with

Green Energy Solutions

Extract of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March 2022 (* Crore)

31.03.2022

116137.33

19165.75

19165.75

16111.42

16023.79

9696.67

118354.40

127391.38

170647.08

5643.18

16.62

15.26

31.03.2021

99206.72

15278.52

13915.52

13769.52

13701.33

9696.67

109288.82

118306.1

173616.19

6240.43

13.99

12.18

Quarter

31.03.2022

37085.07

6022.13

6022.13

5199.51

5166.50

33.01

5148.48

9696.67

125677.07

134656.61

209555.26

6421.72

5.33

5.12

31.03.2021

30102.60

4020.87

4017.72

4649.49

4541.79

107.70

4703.26

9696.67

116041.80

125016.19

209310.38

6970.47

4.68

5.02

31.03.2022

132669.28

20520.91

20520.91

16960.29

16675.90

284.39

16873.04

9696.67

125677.07

134656.6

209555.26

6421.72

17.20

15.66

For and on behalf of Board of Directors of

NTPC Limited

(A.K.Gautam)

Director (Finance)

DIN:08293632

31.03.2021

111531.15

16998.93

15486.74

14969.40

14634.63

334.77

14870.31

9696.67

116041.80

125016.19

209310.38

6970.47

14.87

12.93

Standalone

31.03.2021

26566.86

3789.21

3789.21

4479.22

4533.60

9696.67

109288.82

118306.11

173616.19

6240.43

4.62

4.92

Figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the

1 The above is an extract of the detailed formats of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full formats of the financial results of the Company are available on the investor section

of our website https://www.ntpc.co.in and under Corporate Section of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at

31.03.2022

32905.02

6487.48

6487.48

5621.89

5562.90

9696.67

118354.40

127391.38

170647.08

5643.18

5.80

5.65

* Excluding Fly ash utilization reserve, Corporate social responsibility reserve and items of Other comprehensive income.







A retired man

Glimpse of a working life

There's a saying in Hindi—baal ki khaal ukharna, to peel off the skin of the hair. That's what this grey-haired man is upto, on a pavement here in central

Delhi. Except he is deftly slicing off slim wooden stripes that are already as slim as a hair. Each time a curious passerby looks on, he throws a friendly smile but stays absorbed in his work.

"I'm preparing a jharoo," he says, not lifting off his eyes. He describes himself through a gesture, momentarily lifting his arm towards a small board fitted to an adjacent pole-it says "Dada", and gives his mobile number. "That's me... everyone knows me by this name, my grandchildren gave me this name ... but my real name is Karua." In his 60s, Dada has retired from his day job in 2017 — "but I feel restless at home." So, every morning he leaves his house in Meethapur,

boards a DTC bus, and stations himself for a few

hours on this spot, where he makes jharoo .-

"unless a neighbourhood resident calls me on my

Dada will tie up these "seek" together into a single

mobile for a service, such as a drain cleaning."

broom, he says.

For all these years, he worked as an employee in the municipality, and his job included sweeping of the streets every morning in this very locality. "My father, who was from Tundla, was also an employee in the municipality." His wife is employed in the same organisation, he says. She still has few years to go before she retires. Two of their three sons have landed in the same organisation as well. His third son works in a shop, and his only daughter lives with her husband elsewhere.

"I'm still young... I have years of work ahead." Turning the conversation to the jharoo's stripes, he observes that "it is good if each seek is thin and sharp... Because the jharoo then is able to scrape things off the road easily, and it (broom) feels lighter in the hand." In fact, he says, he often makes new replacements for his wife and two sons. He runs his hand across his hair, remarking that "broom is similar to comb, in the way that they need sharp teeth to run effortlessly."

It's around 10. By afternoon he will be back home and served a hot meal by his daughters-inlaw. "After which I will sleep and relax for the rest of the day," he says, laughing, "like a retired man."





For more stories by Mayank Austen

Soofi, scan the QR code



2 Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

NTPC Limited
(A Government of India Enterprise)


Leading the Power Sector

(A Government of India Enterprise)

CIN: L65910DL1986G0I026363 Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok Diplomatic Enclave, 50-B

Chanakyapuri, New Delhi -110021. Ph.: 011-24100385, Email: investors@irfc.co.in, Website: www.irfc.co.in

(Amounts in millions of INR, unless stated otherwise)



	Particulars		Quarter Ende	Year Ended		
S.No		31 March 2022	31 December 2021	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
(1)	Revenue From Operations	59,311.25	50,958.06	44,549.46	202,982.68	157,702.2
(II)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.3
(III)	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.3
(IV)	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	14,924.95	15,939.09	14,825.50	60,898.36	44,161.3
(V)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	14,916.69	15,939.25	14,826.26	60,893.36	44,176.0
(VI)	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.0
(VII)	Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	279,278.34	264,361.68	228,448.76	279,278.34	228,448.7
(VIIII)	Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.7
(IX)	Net Worth	409,963.40	395,046.74	359,133.82	409,963.40	359,133.8
(X)	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	3,884,166.18	3,691,017.50	3,231,106.79	3,884,166.18	3,231,106.79
(XI)	Debt Equity Ratio	9.47	9.34	9.00	9.47	9.00
(XII)	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- Per Share)					
	-Basic (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.60
	- Diluted (Rs)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66
	1	I				

- 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on 20th May 2022.
- 2. The above is an extract of the detailed format for the quarter and year ended 31 March 2022 financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended 31 March 2022 financial results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Company (www.irfc.co.in).
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary
- 4. The Board of Directors has recommended the final Dividend of Rs. 0.63/- per equity share of Rs 10/- each for the financial year 2021-22, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of Rs 0.77/per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for the Financial Year 2021-22 to Rs. 1.40/- per share, on the face value of Rs 10/- each.
- 5. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com

Place: Gandhinagar, Gujarat Date: 20th May 2022

(Amitabh Banerjee) Chairman & Managing Director DIN: 03315975

Important Notice: Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at investors@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@beetalfinancial.com which will be used for sending official documents through e-mail in future.



IRFC Posts 29% Growth in Revenue and 38% **Jump in Net Profit for FY 2021-22**

EPS to end of FY 22 Rises to ₹ 4.66 from ₹ 3.66 as at the end of FY 21



ADVERTISEMENT

GANDHINAGAR, GUJARAT, 20TH MAY 22: Indian Railway Finance Corporation Limited, Schedule 'A' Public Sector Enterprise ("IRFC" or the "Company"), the dedicated market borrowing arm of the Indian Railways, has announced its audited financial results for the fourth quarter and financial year ended 31st March 2022. The Company posted a YoY profit growth of 37.90% for the FY 2021-22 vis-à-vis FY 2020-21.

In FY 2021-22, the Company reported Profit After Tax (PAT) of ₹ 6,090 crore vis-a-vis ₹4,416 crore reported in the previous FY 2020-21.

The Revenue from Operations for FY 2021-22 grew by 28.71 % & stands at ₹ 20,298.27 Crore, as against ₹ 15,770.22 Crore in previous FY 2020-21. The revenue from operations for Q4/FY 2022 grew by 16.39% to stand at ₹ 5,931.12 Crore as against ₹ 5,095.81 Crore reported in Q3/FY 2022.

Net worth to end of FY 2021-22, stands at ₹ 40,996.34 crore up by 14.15 %, as against ₹35,913.38 crore reported to end of FY 2020-21.

Assets Under Management (AUM) stands at ₹ 4,15,237.68 crore as on 31st March 2022 registering a growth of 15.32%.

The Earning Per Share (EPS) of the company is ₹ 4.66 to end of FY 2021-22, as compared to ₹ 3.66 to end of FY 2020-21 registering an increase of 27.32 % YoY. The Company continues to raise funds at the most competitive rates and terms, both from the domestic and overseas financial markets, which has helped to keep cost of borrowings low.

The Board of Directors has recommended the final Dividend of ₹ 0.63 per equity share of Rs 10/each for FY 2021-22, subject to approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM). This is in addition to the Interim Dividend of ₹ 0.77/- per equity share declared on 1st November 2021, thereby making total dividend for FY 2021-22 to ₹ 1.4 per share, on the face value of ₹10/- each.

Commenting on the Financial Results, Shri. Amitabh Banerjee, Chairman and Managing Director, IRFC said: "IRFC has consistently exhibited a rising and strong financial performance on the back of raising funds at the most competitive rates and at the opportune time from the domestic and international markets. Despite the hardening of interest rate in the financial market, due to diversified borrowing portfolio IRFC could achieve reduction in weighted average cost of borrowing by 10 bps as compared to previous year. IRFC is committed to its contribution to India's resolve in developing and expanding the Infrastructure Sector with a special impetus on Railway Sector. This is amply evident from the high quantum of borrowing mandate of ₹ 66,500 for FY 2022-23 received from MoR.

Government of India has encouraged private participation in rail projects and has approved participative models for rail connectivity and capacity augmentation projects. IRFC is set to expand its wings, and as per the mandate, it can finance Non-Railway projects that have a backward and/or a forward linkage with the Indian Railways, which would include high-speed rails, dedicated freight corridors, station development, port development and multi-modal logistic parks."

Chief Coordinator Planner (NCR)
10 05 2022 Haryana, Chandigarh

17

11 12 13 14 15

10 9

DAVP 28101/11/0006/2223

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8

Cha an & Managing DIN: 0331597

tant Notice: Member(s) are requested to "exister/update their E-mail ID with company at invester/@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@bea. "scancial.com which will be used bear frain official documents through e-mail in future.

सरदर्द, तनाव और थकान सताए

9 जड़ी-बूटियों वाले

नवरत्न तैल की चंपी हो जाये!



oelhi College of Engineering) vt. of Delhi vide Act 6 of 2009) tour, Bawana Road, Delhi-110042

Admission Notice for M.Tech. Programmes: 2022-2023 disciplines for the academic session: 2022-2023. Application led Online w.e.f. 23.05.2022 (Monday) 10.00 A.M. to 20.06 12.00 Midnight through the Linkspecific work.

महिलाओं का स्वास्थ्य टॉनिक

"महिलाओं के लिए 33 पोषक तत्वों युक्त जड़ी बूटियों से बना एक सन्तुलित टॉनिक"

चुस्त और एक्टिव रखने में सहायक

@ 1800-102-8384

सार्वजनिक सूचना

सार्व जो क्षिप्त कर स्टूला ।
संस्थारण को युवित किया जा है है है सम संकार-फार्क-2 / 8078ी-8088ी, रस्तक्षार की जा नहित्युक्त, संस्थार की अपने हित्युक्त ।
स्वित्युक्त के स्वतं के स्वतं



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थां (पंजी.)

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत निकाय) केंद्रीय कार्यालय , वेस्टर्न सेक्टर ,पऊकेंबि-6 , अणुशक्तिनगर , मुंबई -400094

फोन (022) 25565049/25571501/25503328 वेवसाइट: : www.aees.gov.in

त्यों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए निम्नलिखित शैक्षिक पदों हेत पात्र भा पद गतकोत्तर अध्यापक (अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी/संस्कृत, गणित भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, पी.ई.टी (पुरूप), पी.ई.टी (महिला), कला, मराठी) पस्तकालवाध्यक्ष 08 प्राथमिक शिक्षक 70 प्राथमिक शिक्षक (संगीत) 05

पात्रता मानदंड, वेतन लेवल, आय सीमा, आरक्षण, चयन का माध्यम, आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए कपया वेबसार www.aees.gov.in. देखें



सुन्दरी सखी

डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

ned by Govt of NCT of Delhi vide Dr. B. R. Amb

4

Dr. B.R. Ambedkar University Delhi

F No. AUD/SBPPSE/10-02-11/2017-18/MBA Admission

परेटरी शिक्षक

06

205

स्कूल ऑफ़ बिज़नेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप

(SCHOOL OF BUSINESS, PUBLIC POLICY AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP)

डॉ. बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा डॉ. बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत स्थापितएक राज्य विश्वविद्यालय है। डॉ. बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, में मास्टर ऑफ बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम (MBA 2022-24) में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन अमिन्त्रित करता है।

एमबीए प्रवेश

के लिए इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय (https://aud.ac.in/admissions/mba_admissions/2022) पर जा सकते है । कोर्स के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षा में से एक के लिए उपस्थित होना होगा:

- सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (CMAT) 2022 या
- विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन मोड मे आयोजित प्रवेश परीक्षा

अधिक जानकारी के लिए कपया www.aud.ac.in mbaadmissions@aud.ac.in पर ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करे। विदेशी छात्र आवेदन करने के पात्र है। प्रवेश मानदंड और अन्य आवयकताओं के लिए कपया

वेबसाइट देखे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2022 (मंगलवार) है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा 12 जून 2022 (रविवार) 10 बजे से कश्मीरी गेट कैम्पस में आयोजित की जायेगी।

पढ़ें, कौन सा मोबाइल हुआ लॉन्च, कौन सा है आपकी जेब की जद में amarujala.com पर



आईआरएफसी ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए राजस्व में 29% की वृद्धि और शुद्ध लाम में 38% का उछाल दर्ज किया है

नवरत्न

आयुर्वेदिक तैल

R

नवरत्न

वित्त वर्ष 22 के अंत तक ईपीएस वित्त वर्ष 21 के अंत में 3.66 रु

विज्ञापन 7/5=

गांधीनगर, गुजरात, 20 मई 2022: इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम ("आईआरएफसी" या "कंपनी"), भारतीय रेलवे की समर्पित बाजार उधारी शाखा, ने 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 37.90% की वर्ष दर वर्ष लाभ वृद्धि दर्ज की।

वित्त वर्ष 2021-22 में, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में रिपोर्ट किए गए 4,416 करोड़ रु. की तुलना में 6,090 करोड़ रु. के कर के बाद लाभ (पीएटी) की सूचना दी।

वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालनों से राजस्व में 28.71% की वृद्धि हुई और यह पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 15,770.22 करोड़ रु. की तुलना में 20,298.27 करोड़ रु. हो गया। चौथी तिमाही/वित्त वर्ष 2022 के लिए परिचालनों से राजस्व में 16.39% की वृद्धि हुई जो तीसरी तिमाही / वित्त वर्ष 2022 में रिपोर्ट किए गए 5,095.81 करोड़ रु. की तूलना में बढ़कर 5,931.12 करोड़ रु. हो गया।

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में नेट वर्थ 40,996.34 करोड़ रुपए है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में रिपोर्ट की गई 35,913.38 करोड़ रुपए की तुलना में 14.15% अधिक है।

प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) 31 मार्च 2022 को 15.32% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,15,237.68 करोड़ रु. हो गयी है।

कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक 4.66 रु. है। जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 3.66 रु. की तुलना में सालाना 27.32 की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर धन संग्रहित करती है, जिससे उधारी की लागत कम रखने में मदद

निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक 10 / - रुपये के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.63 रु. के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह 1 नवंबर 2021 को घोषित 0.77 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जिससे वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए कुल लाभांश 10 / - रु. प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 1.4 रु. प्रति शेयर हो गया है।

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी करते हुए आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अमिताभ बैनर्जी ने कहाः "आईआरएफसी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर और उपयुक्त समय पर धन जुटाने के बल पर लगातार बढ़ते और मजबूत वित्तीय निष्पादन का प्रदर्शन किया है। वित्तीय बाजार में ब्याज दर के काफी ज्यादा होने के बावजूद, विविध उधार पोर्टफोलियो के कारण आईआरएफसी पिछले वर्ष की तुलना में उधार लेने की भारित औसत लागत में 10 बीपीएस की कमी हासिल कर सका। आईआरएफसी रेलवे क्षेत्र पर विशेष पोत्साहन के साथ अवसंरचना क्षेत्र के विकास और विस्तार में भारत के संकल्प में अपने योगदान के लिए प्रतिबद है। यह रेल मंत्रालय से प्राप्त वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 66,500 रु. के उधार आदेश की उच्च मात्रा के माध्यम से देखा जा सकता है"।

भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और रेल संपर्क और क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के लिए भागीदारी मॉडल को मंजूरी दी है। आईआरएफसी अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए तैयार है और जनादेश के अनुसार यह उन गैर–रेलवे परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है जिनका भारतीय रेलवे के साथ बैकवर्ड और / या फॉरवर्ड लिंकेज है, जिसमें हाई—स्पीड रेल, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशन विकास, बंदरगाह विकास और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल हैं।



इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) CIN: L65910DL1986GOI026363

आज़ादी_{का} अमृत महोत्सव पंजीकृत कार्यात्वयः कमरा एव 1316—1349, तीसरी मंजिल, दि अशोक डिप्लोमेटिक एन्कलेव, 50—यी, चाणवयपुपी, नई दिल्ली—110021. फोन: 011—24100385, ईमेलः investors@irtc.co.in, वेबसाइटः www.irtc.co.in

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण (राशि मिलियन ₹ में, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
क्रमाक.		31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
		(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
(l)	संवालन से राजस्व	59,311.25	50,958.06	44,549.46	202,982.68	157,702.2
(II)	अविध के लिए शुद्ध लाम (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.3
(III)	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम (असाघारण मदों के बाद)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.3
(IV)	कर परवात अवधि के लिए शुद्ध लाम (असाधारण मदों के बाद)	14,924.95	15,939.09	14,825.50	60,898.36	44,161.3
(V)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात अवधि के लिए लाम और कर पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल है)	14,916.69	15,939.25	14,826.26	60,893.36	44,176.0
(VI)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10/-रुपये का अंकित मूल्य)	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.0
(VII)	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	279,278.34	264,361.68	228,448.76	279.278.34	228,448.7
(VIIII)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.
(IX)	नेट वर्थ	409,963.40	395,046.74	359,133.82	409,963.40	359,133.8
(X)	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	3,884,166.18	3,691,017.50	3,231,106.79	3,884,166.18	3,231,106.7
(XI)	ऋण इक्विटी अनुपात	9.47	9.34	9.00	9.47	9.0
(XII)	प्रति शेयर आय (प्रति शेयर 10/- रुपये का अंकित मूल्य)					
	बेसिक (रु.)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.6
	– डेल्यूटिड (रु.)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.6

ाटपाणया. 1 उपरोक्त वित्तीय परिणाम 20 मई 2022 को आयोजित संबंधित बैठको में लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निर्देशक मंदल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड में स्थिम गया है। 2 उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त सिमादी और बने के लिए विस्तृत फार्मेंट का उद्धरण है, जो सेबी (सूचीकरण दायित और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सबेंज के साथ फाइल किया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त

आवरयकताए। ावानयम, 2015 क ावीनयम 33 और विगेनयम 52 के तहत स्टाक एक्सवण के साथ फाइल किया गया है। 31 मार्थ, 2022 को वामाएं तिमाही और वर्ष के किसीय परिणामों का पूरा कार्येट स्टॉक एक्सवेज की वेश्साइट (www.bseindia.com) और अंभानी की वेशसाइट (www.lifc.co.in)) पर चपनका है। ते प्रिप्तती कार्यक के आंकड़ों को अर्ता करीं आवरयक समझा गया, पुनर्शगीकृत/पुनर्यविश्वल किया गया है। ६. गिरेशक गंदन ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए पत्ति 10/— रू. के इक्तियों शोशर के अनुसार 0.63/— रू. के अंतिम लामांश की रिकारिश की है, जो आगामी वार्षिक कार्य के 2021—22 के लिए पत्ति 10/— रू. के इक्तियों है। यह 1 नवस्य 2021 को पत्ति व.77/— रू. पत्ति इक्तियों शेयर के अंतिम लामांश की रिकारिश शेयर के अंतिम लामांश के अतिरिश्त है, जिससे वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए कुल लामांश प्रति 10/— रू. के अंकित गूल्य पर प्रति शेयर 140/— रू. हो

नया ह। औमेटीरियलाइण्ड मोंड में शेयर रखने वाले शेयरयारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें, अपना ईमेल, मोबाइल नंदर और अन्य विसरण अपने डियॉजिटरी प्रतिमागियों के माध्यम से संबंधित डियॉजिटरी के पास पंजीकृत करें। मोरिक कम में शेयर रखने वाले शेयरासकों से अनुरोध है कि वे कंपनी कर पेजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (गी) लिमिटेड को irlc@beetalfinancial.com पर विवरण प्रस्तुत करें।

स्थानः गांधीनगर, गुजरात दिनांकः 20 मई, 2022

(अमिताभ बैनर्जी)

गहरपपूर्ण सूचनाः सदस्यों से अनुरोध है कि ने अपनी ई-मेल आईटी को कंपनी के पास investors@irfc.co.in पर∕ हिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्व∕कंपनी के रिलस्ट्रार और रोगर ट्रांसफर एजेंट irfc@beetallinancial.com पर रिलस्टर/अपकेट करें, जिसका इस्तेमाल मधिया में ई-मेल के माध्यम से आधिकारिक दस्तावेज मेजने के लिए किया जाएगा।



खबर कोना

आनंद सुपरबेट रैपिड दूर्नामेंट में शीर्ष पर बरकरार

वारसा , 20 मई (भाषा)।

भारत के दिग्गज शतरंज खिलाडी विश्वनाथन आनंद सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग के दूसरे दिन चौथे और पांचवें दौर में जीत दर्ज कर तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं । आनंद ने पहले दिन अपने तीनों मुकाबले जीते थे। उनके लगातार पांच जीत के सिलसिले को स्थानीय खिलाडी जन-क्रिजस्टाफ डूडा ने छठे दौर के मैच को ड्रा करके खत्म किया।

पहले एफ आइएच महिला हाकी फाइव्स के लिए टीम घोषित

नई दिल्ली , 20 मई (भाषा)।

भारत ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में चार से पांच जून तक होने वाले पहले एफआइएच महिला हाकी फाइव्स (पांच खिलाड़ियों का मुकाबला) हाकी टूर्नामेंट के लिए शुक्रवार को नौ सदस्यीय टीम घोषित की। टीम की कमान अनुभवी गोलकीपर रजनी एटिमार्पू को सौंपी गई है और महिमा चौधरी उपकप्तान होंगी।

एशिया कपः सोमवार को आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान

बंगलुरु , 20 मई (भाषा)।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बीरेंद्र लाकड़ा की अगुआई वाली भारतीय पुरुष हाकी टीम अपने एशिया कप खिताब के बचाव के लिए शुक्रवार को जकार्ता रवाना हो गई। भारत अपने अभियान की

शुरुआत सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम पूल ए में जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया से भिडेगीं।

अकाने यामागुची पर तीन गेम में जीत दर्ज की

नंबर एक खिलाड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचीं सिंधु

बैंकाक, 20 मई (भाषा)।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने शुक्रवार को यहां जापान की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी अकाने यामागुची पर तीन गेम में जीत दर्ज कर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

छठी वरीयता प्राप्त भारतीय ने जापान की दूसरी वरीय खिलाड़ी को 51 मिनट में 21-15 20-22 21-13 से हराया और अब उनका सामना चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यु फेई से होगा।

पिछली बार दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में विवाद खड़ा हो गया था जिसमें सिंधु पर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दौरान अंपायर ने रणनीति बनाने में देरी के लिए एक अंक का जुर्माना

सिंधु का मैच से पहले जीत का रेकार्ड 13-9 था और उन्होंने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन पर थाईलैंड ओपन



छटी वरीयता प्राप्त सिंधु ने जापान की खिलाडी को 51 मिनट में 21-15 20-22 21-13 से हराया और अब उनका सामना चीन की ओलंपिक चैंपियन

चेन यु फेई से होगा।

14वीं जीत हासिल की। शुरू में दोनों खिलाड़ियों के खेल में कोई अंतर नहीं था जिसमें सिंधु अपने क्रास कोर्ट शाट से यामागुची को मुश्किल में डाल रही थीं जो तीन अंक की बढ़त गंवा बैठी और भारतीय खिलाड़ी ब्रेक तक 11-9 से आगे हो गई। सिंधु ने फिर लगातार सात अंक जुटाकर इसे 19-14 कर दिया।

यामागुची के नेट पर शाट लगाने से वह इस गेम को अपने नाम करने में सफल रहीं। यामागुची दूसरे गेम में थोड़ी सक्रिय नहीं

दिख रही थीं जिसका फायदा उठाते हुए सिंधु ने ब्रेक तक 11-5 की बढ़त बना ली जिसमें उन्होंने बिना किसी परेशानी के अंतिम 11 अंक में 10 जीत लिए।

ब्रेक के बाद सिंधु को 'सर्विस फाल्ट' मिला और जल्द ही यामागुची ने वापसी करते हुए अच्छे शाट लगाकर 16-16 की बराबरी हासिल कर ली। तेजी से लगे स्मैश और सटीक रिटर्न से जापानी खिलाडी को दो अंक मिले। सिधु ने दो अंक बचाए लेकिन सर्विस में गलती कर बैठी जिससे मैच निर्णायक गेम तक पहुंच गया। तीसरे गेम में सिधु ने छह अंक की बढ़त बना ली थी और यामागुची को अपनी पीठ से परेशानी हो रही थी जिससे उनके स्ट्रोकप्ले प्रभावित हो रहे थे।

सिंधु ने यामागुची की गलती से 15-11 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी ने जल्द ही अपने स्मैश और सटीक शाट से अंक जुटाकर जीत हासिल की।



मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शुक्रवार को आइपीएल मैच के दौरान चेन्नई के खिलाफ शाट लगाते राजस्थान के रविचंद्रन अश्विन।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से 'लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे' का अंत हो गया

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल से अधिक समय तक रहने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा पद से हटाए जाने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को इस आदेश को स्वीकार कर लिया और कहा कि इससे 'लंबे समय से चले आ रहे लंबित मुद्दे का समापन' हो गया।

प्रफुल्ल पटेल ने कहा

एआइएफएफ में पटेल का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चलाने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) गठित करने के बाद खत्म हुआ।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायमुर्ति (सेवानिवृत्त) एआर दवे की अध्यक्षता में एक पैनल चुना जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली सदस्य हैं।

पटेल ने बयान में कहा, 'मैं 2017 से लंबे समय से चले आ रहे लंबित मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। मैं सीओए को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप एक नया संविधान बनाने की अपनी जिम्मेदारी को पुरा करें।'

राजस्थान रायल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराया

मुंबई, 20 मई (भाषा)।

रविचंद्रन अश्विन के हरफनमौला खेल (एक विकेट और नाबाद 40 रन) और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (59) की अर्धशतकीय पारी से राजस्थान रायल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष तालिका में दूसरा स्थान पक्का कर लिया।

राजस्थान की 14 मैचों में यह नौवीं जीत है। टीम के नाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बराबर 18 अंक है लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह दूसरे स्थान पर है। चेन्नई की टीम 14 मैचों में 10 हार के कारण नौवें स्थान पर है।

अनुभवी मोईन अली की 57 गेंद में 93 रन की पारी के दम पर चेन्नई सुपरिकग्स ने छह विकेट पर 150 रन बनाये। राजस्थान ने 19.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। चेन्नई की यह लगातार तीसरी हार है। जायसवाल ने 44 गेंद में आठ चौके और एक छक्का लगाने के साथ दूसरे विकेट के लिए कप्तान संज सैमसन (15 रन) के साथ 51 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। अश्विन ने 23 गेंद की आक्रामक पारी में दो चौके व तीन छक्के जडे।

आज़ादीका



आईआरएफसी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजस्व में 29% की वृद्धि और शुद्ध लाभ में 38% का उछाल दर्ज किया है

वित्त वर्ष 22 के अंत तक ईपीएस वित्त वर्ष 21 के अंत में 3.66 रु. से बढ़कर 4.66 रु. हो गया

विज्ञापन आज़ादीका अमृत महोत्सव

गांधीनगर, गुजरात, 20 मई 2022: इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम ("आईआरएफसी" या "कंपनी"), भारतीय रेलवे की समर्पित बाजार उधारी शाखा, ने 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 37.90% की वर्ष दर वर्ष लाभ वृद्धि दर्ज की।

वित्त वर्ष 2021-22 में, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में रिपोर्ट किए गए 4,416 करोड़ रु. की तुलना में 6,090 करोड़ रु. के कर के बाद लाभ (पीएटी) की सूचना दी।

वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालनों से राजस्व में 28.71% की वृद्धि हुई और यह पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 15,770.22 करोड़ रु. की तुलना में 20,298.27 करोड़ रु. हो गया। चौथी तिमाही / वित्त वर्ष 2022 के लिए परिचालनों से राजस्व में 16.39% की वृद्धि हुई जो तीसरी तिमाही / वित्त वर्ष 2022 में रिपोर्ट किए गए 5,095.81 करोड़ रु. की तुलना में बढ़कर 5,931.12 करोड़ रु. हो गया।

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में नेट वर्थ 40,996.34 करोड़ रुपए है जो कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 के अंत में रिपोर्ट की गई 35,913.38 करोड़ रुपए की तुलना में 14.15% अधिक है।

प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) 31 मार्च 2022 को 15.32% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,15,237.68 करोड़ रु. हो गयी है।

कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 4.66 रु. है। जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 3.66 रु. की तुलना में सालाना 27.32 की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर धन संग्रहित करती है, जिससे उधारी की लागत कम रखने में मदद मिलती है

निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक 10 / - रुपये के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.63 रु. के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह 1 नवंबर 2021 को घोषित 0.77 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश 10 / - रु. प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 1.4 रु. प्रति शेयर हो गया है।

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी करते हुए आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अमिताभ बैनर्जी

ने कहाः "आईआरएफसी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर और उपयुक्त समय पर धन जुटाने के बल पर लगातार बढ़ते और मजबूत वित्तीय निष्पादन का प्रदर्शन किया है। वित्तीय बाजार में ब्याज दर के काफी ज्यादा होने के बावजूद, विविध उधार पोर्टफोलियों के कारण आईआरएफसी पिछले वर्ष की तुलना में उधार लेने की भारित औसत लागत में 10 बीपीएस की कमी हासिल कर सका। आईआरएफसी रेलवे क्षेत्र पर विशेष प्रोत्साहन के साथ अवसंरचना क्षेत्र के विकास और विस्तार में भारत के संकल्प में अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेल मंत्रालय से प्राप्त वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 66,500 रु. के उधार आदेश की उच्च मात्रा के माध्यम से देखा जा सकता है"।

भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और रेल संपर्क और क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के लिए भागीदारी मॉडल को मंजूरी दी है। आईआरएफसी अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए तैयार है और जनादेश के अनुसार यह उन गैर-रेलवे परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है जिनका भारतीय रेलवे के साथ बैकवर्ड और / या फॉरवर्ड लिंकेज है, जिसमें हाई-स्पीड रेल, समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर, स्टेशन विकास, बंदरगाह विकास और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल हैं।



इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) CIN: L65910DL1986GOI026363

पंजीकृत कार्यालयः कमरा संठ 1316-1349, तीसरी मंजिल, दि अशोक डिप्लोमैटिक एन्कलेव, 50-बी,

अमृत महोत्सव चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021. फोनः 011-24100385, ईमेलः investors@irfc.co.in, वेबसाइटः www.irfc.co.in

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(राशि मिलियन ₹ में, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
क्रमाक.		31 मार्च 2022	2022 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021 (लेखापरीक्षित)
		(लेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
(I)	संचालन से राजस्व	59,311.25	50,958.06	44,549.46	202,982.68	157,702.21
(H)	अवधि के लिए शुद्ध लाम (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.31
(III)	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	14,928.14	15,939.09	14,825.50	60,901.55	44,161.31
(IV)	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम (असाधारण मदों के बाद)	14,924.95	15,939.09	14,825.50	60,898.36	44,161.31
(V)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात अवधि के लिए लाभ और कर पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल है)	14,916.69	15,939.25	14,826.26	60,893.36	44,176.07
(VI)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10/-रुपये का अंकित मूल्य)	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06	130,685.06
(VII)	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	279,278.34	264,361.68	228,448.76	279.278.34	228,448.76
(VIIII)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74
(IX)	नेट वर्ध	409,963.40	395,046.74	359,133.82	409,963.40	359,133.82
(X)	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	3,884,166.18	3,691,017.50	3,231,106.79	3,884,166.18	3,231,106.79
(XI)	ऋण इक्विटी अनुपात	9.47	9.34	9.00	9.47	9.00
(XII)	प्रति शेयर आय (प्रति शेयर 10/— रुपये का अंकित मूल्य)					
	– बेसिक (रु.)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66
	– डेल्यूटिड (रु.)	1.14	1.22	1.23	4.66	3.66

1. उपरोक्त वित्तीय परिणाम 20 मई 2022 को आयोजित संबंधित बैठकों में लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड में लिया गया है।

2. उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए विस्तृत फार्मेंट का उद्धरण है, जो सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल किया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूरा फार्मेंट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.irfc.co.in) पर उपलब्ध है।

3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

4. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति 10 / - रु. के इक्विटी शेयर के अनुसार 0.63 / - रु. के अंतिम लामांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह 1 नवम्बर 2021 को घोषित 0.77/- रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश प्रति 10/- रु. के अंकित मुल्य पर प्रति शेयर 1.40/- रु. हो

5. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड को irfc@beetalfinancial.com पर विवरण प्रस्तुत करें।

स्थानः गांधीनगर, गुजरात दिनांकः 20 मई, 2022

हस्ता / . (अमिताभ बैनर्जी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 03315975

महत्वपूर्ण सूचनाः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई—मेल आईडी को कंपनी के पास investors@irfc.co.in पर/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट irfc@beetalfinancial.com पर रजिस्टर/अपडेट करें. जिसका इस्तेमाल भविष्य में ई-मेल के माध्यम से आधिकारिक दस्तावेज भेजने के लिए किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 39, अंक 184

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) . 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक : मुकेश भारद्वाज*,** *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com